

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.01.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **11 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में चलाए जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार के अभियान के क्रम में थाना खरगपुर पुलिस ने 04, थाना कौडिया पुलिस ने 01, थाना को0 नगर पुलिस ने 02 व थाना परसपुर पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.01.2023**

**जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 06 अभियुक्त गिरफ्तार, 100 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे 10 लीटर कच्ची शराब बरामद, थाना धानेपुर पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना खोड़ारे पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना नवाबगंज पुलिस ने 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 70 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.01.2023**

**बलवा कर मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बलवा कर मारपीट करने के आरोपी 02 आरोपी अभियुक्तों- 01. लल्लू पुत्र हरिबक्स, 02. राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते वादी राजू पुत्र अमरेश व उसके भाई जसवंत को मारा-पीटा था। जिससे वादी के भाई जसवंत के सिर में चोटे आई थी। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. लल्लू पुत्र हरिबक्स नि0 ग्राम कंजेमऊ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. राजकुमार पुत्र लल्लू नि0 ग्राम कंजेमऊ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-590/22, धारा 323,504,506,324,147,308 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ0नि0 मनीष कुमार मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.01.2023**

**लूट करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार व लूट के रू0 3000/- बरामद-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने लूट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों- 01.मनोज दीक्षित, 02.नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलेनो कार व लूट के रू0 3,000/- बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 21.01.2022 को हुजूरपुर मोड स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प पर लूट की घटना कारित की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी कमलेश पुत्र रामदेव नि0 ग्राम सकरौरा ग्रामीण पूरे सुदिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मनोज दीक्षित पुत्र सुरेश चंद्र नि0 कैथोली थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. नरेंद्र सिंह पुत्र स्व0 रवींद्र नाथ सिंह नि0 जरवल रोड थाना जरवल जनपद बहराइचा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-34/23, धारा 392,411 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोंडा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद बलेनों कार।
02. 3000 रुपए

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

- प्र0नि0 करनैलगंज सुधीर कुमार सिंह मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 22.01.2023**

**बलवा कर घर में तोड़फोड़ करने व गुंडा टैक्स मांगने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सोनी गुमटी रेलवे क्रॉसिंग के पास से बलवा कर घर में तोड़फोड़ करने के आरोपी अभियुक्त श्यामू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी शिवा जायसवाल से गुंडा टैक्स के रूप में 2 लाख रुपए मांगे थे वादी द्वारा मना करने पर विपक्षीयों वाला वादी के घर में तोड़फोड़ की गई थी। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. श्यामू गुप्ता पुत्र पराग गुप्ता निवासी सतई पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-827/22, धारा 147,148,149,336,386,427,506 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० अंकुर वर्मा मय टीम।